



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 17, 1970 (आश्विन 25, 1892)
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 17, 1970 (ASVINA 25, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह पलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4 (PART I—SECTION 4)

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं
(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence)

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर 1970

रक्षा उत्पादन विभाग

सं० 2720, दिनांक 24 सितम्बर 1970—रेल मंत्रालय से स्थानांतरित होने पर डा० जसमेर सिंह, आई० आर० ए० एस० को राष्ट्रपति दिनांक 20 मई 1970 से रक्षा उत्पादन विभाग में उप योजना अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एन० बी० स्वामीनाथन, अवर सचिव

(सेना विभाग)

सं० 2721, दिनांक 13 अगस्त 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :—

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

श्री एच० मी० पाण्डे, स्थाई अधीक्षक को सिविलियन स्टाफ अफसर के पद पर स्थानापन्न रूप से 8 जून 1970 से 10 जुलाई 1970 (अपराह्न) तक श्री बी० जी० बैनर्जी के स्थान पर जो अवकाश पर थे।

श्री एच० एन० सन्ना, स्थाई सहायक को अधीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप से 8 जून, 1970 से 10 जुलाई 1970 (अपराह्न) तक श्री एच० मी० पाण्डे के स्थान पर जिनकी पदोन्नति कर दी गई।

2843U/70

श्री एस० एल० गोगिया, स्थाई सहायक को अधीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप से 8 जून 1970 से 31 जुलाई 1970 (अपराह्न) तक श्री आई० पी० गोयल के स्थान पर जो अवकाश पर थे।

श्री के० जी० दीवान, स्थाई सहायक को अधीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप से 20 जून, 1970 से 25 जुलाई 1970 (अपराह्न) तक श्री एन० एस० जैन के स्थान पर जो अवकाश पर थे।

डी० जे० बराट,
सहायक मुख्य प्रशासन अधिकारी

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं० 2722, दिनांक 24 सितम्बर 1970—राष्ट्रपति महोदय सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

रक्षा विज्ञान सेवा

डा० बी० डी० नाग चौधरी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार तथा रक्षा अनुसंधान तथा विकास, रक्षा मंत्रालय, नयी दिल्ली के महानिदेशक के पद पर, पांच वर्षों की अवधि के अनुबंध पर दिनांक 1 जुलाई 1970 (पूर्वाह्न) से नियुक्त हुए। अपने दायित्व-क्षेत्र में वह सरकार के पदेन-सचिव के आह्वे पर भी रहेंगे।

(1269)

भारत के राजपत्र सं० 31 दिनांक 1 अगस्त, 1970 के भाग I खण्ड 4 के अन्तर्गत प्रकाशित रक्षा मंत्रालय अधिसूचना सं० 1967 दिनांक 4 जुलाई 1970 में जहाँ तक सम्बन्ध डा० बी० डी० नाग चौधरी से है, इसके द्वारा रद्द किया जाना है।

सं० 2723, दिनांक 24 सितम्बर 1970—राष्ट्रपति महोदय सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री एस० के० बसू, स्थायीवृत्त कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, नाभिकीय औषध तथा सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली को इसी संस्थापन में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2 के पद पर, दिनांक 3 जुलाई 1970 (पूर्वाह्न) से।

डा० पी० सी० गुप्ता, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, नाभिकीय औषध तथा सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, दिल्ली को इसी संस्थापन में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2 के पद पर, दिनांक 3 जुलाई 1970 (पूर्वाह्न) से।

डा० एन० के० मल्होत्रा, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक मूल्यांकन निदेशालय अनुसंधान तथा विकास संगठन, मुख्यालय, नयी दिल्ली को इसी निदेशालय में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2 के पद पर, दिनांक 3 जुलाई 1970 (पूर्वाह्न) से।

श्री डी० पी० बात्रा, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक विश्लेषण समूह, अनुसंधान तथा विकास संगठन मुख्यालय, नयी दिल्ली को इसी संस्थापन में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2 के पद पर, दिनांक 3 जुलाई 1970 (पूर्वाह्न) से।

श्री सतीश चन्द्र मैनी, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, आयुध अनुसंधान तथा विकास संस्थापन, पूना को इसी संस्थापन में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2 के पद पर, दिनांक 8 जुलाई 1970 (पूर्वाह्न) से।

श्री विष्णु कुमार गुप्ता, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, आयुध अनुसंधान तथा विकास संस्थापन, पूना को इसी संस्थापन में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2 के पद पर, दिनांक 8 जुलाई 1970 (पूर्वाह्न) से।

श्री एस० मुकर्जी, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, अनुसंधान तथा विकास संस्थापन (इंजीनियरिंग), दिधी, पूना को इसी संस्थापन में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2 के पद पर, दिनांक 8 जुलाई 1970 (पूर्वाह्न) से।

श्री प्रताप चन्द्र सक्सेना, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, आयुध अनुसंधान तथा विकास संस्थापन, पूना को इसी संस्थापन में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2 के पद पर, दिनांक 8 जुलाई 1970 (पूर्वाह्न) से।

श्री सुरजित सिंह सोबनी, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, आयुध अनुसंधान तथा विकास संस्थापन, पूना को इसी संस्थापन में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, श्रेणी-2 के पद पर, दिनांक 8 जुलाई 1970 (पूर्वाह्न) से।

श्री राजेन्द्र कुमार चोपड़ा, अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, रक्षा प्रयोगशाला, जोधपुर को इसी संस्थापन में स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर, दिनांक 5 मार्च 1970 (अपराह्न) से।

बी० एस० कपूर, उप निदेशक

रक्षा उत्पादन विभाग

सं० 2724, दिनांक 28 सितम्बर 1970—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

श्री बलामुतिल रमनपिलाई मुकुमार, असैनिक अधिकारी श्रेणी-2, जनरल रिजर्व इंजीनियर कोर्स, मडुकी को दो वर्ष की परखावधि पर सामान्य भंडार निरीक्षणालय, पश्चिमी भारत, बम्बई में अस्थायी असैनिक सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद पर, 13 अगस्त 1970 (पूर्वाह्न)।

अधिसूचना सं० 825 दिनांक 11 मार्च 1970 के संवर्ध में, जो भारत के राजपत्र दिनांक 4 अप्रैल, 1970 में प्रकाशित हुई है, श्री एन० एल० श्रीवास्तवा को सामान्य भंडार निरीक्षणालय, पश्चिमी भारत, बम्बई में 1 अप्रैल, 1970 (पूर्वाह्न) से 12 अगस्त 1970 (अपराह्न) तक अस्थायी असैनिक सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद पर।

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री नारायण अय्यर गोपालाकृष्णन को मुख्य निरीक्षणालय इलेक्ट्रोनिक्स, बंगलूर में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर, 6 अगस्त 1970 (पूर्वाह्न)।

श्री प्रमोद सदाशिव देशपाण्डे, अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, गाडी विकास तथा अनुसंधान संस्थापन, आबादी को आयुध निरीक्षणालय, कानपुर में दो वर्ष की परखावधि पर अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर, 10 अगस्त 1970 (पूर्वाह्न)।

सं० 2725, दिनांक 26 सितम्बर 1970—राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री पी० दास, अस्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (स्थायी सहायक फोरमेन), मुख्य निरीक्षणालय छोटे शस्त्र, इच्छापुर को आयुध निरीक्षणालय, काशीपुर में स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-2 के पद पर, 13 जुलाई 1970 (पूर्वाह्न)।

श्री टाइटस फिलिप, स्थायी मुख्य चित्र बनाने वाला, कपड़ा और वस्त्र का मुख्य निरीक्षणालय, कानपुर को इसी संस्थापन में स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर, 4 मई 1970 (पूर्वाह्न)।

श्री वेबस्टर गोडफ्रे अडगर, स्थायी सहायक फोरमेन/स्थानापन्न फोरमेन, मुख्य कपड़ा और वस्त्र का मुख्य निरीक्षणालय, कानपुर को इसी संस्थापन में स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर, 4 मई 1970 (पूर्वाह्न)।

सं० 2726, दिनांक 24 सितम्बर, 1970—निम्नलिखित अधिकारी उनके सामने दी गई तिथि से सेवा-निवृत्त हुआ :—

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री एस० एम० डाडेकर, स्थायी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी/स्थानापन्न वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी 2, सामान्य भंडार निरीक्षणालय, पश्चिमी भारत, बम्बई, 19 मार्च, 70 (अपराह्न)।

श्री डबल्यू० बी० नागरकर, स्थानापन्न कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (स्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक), मुख्य निरीक्षणालय मैनिफेस्टोटेक, किरकी, 9 सितम्बर, 70 (अपराह्न)।

के० आर० गोयल, उप निदेशक (कार्मिक)

तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु)

सं० 2727, दिनांक 23 सितम्बर, 1970—राष्ट्रपति महोदय सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

रक्षा विज्ञान सेवा

श्री पी० वी० नारायणन को अस्थायी सहायक निरीक्षण अधिकारी के पद पर मुख्य निवासी निरीक्षक कार्यालय, तकनीकी विकास तथा उत्पादन निदेशालय (वायु) मुनावेदा में दो वर्ष की परखावधि पर दिनांक 29-8-70 (पूर्वाह्न) से नियुक्त किया।

ति० वे० शंकरन, निदेशक

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं० 2728, दिनांक 25 सितम्बर, 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित को कमीशन प्रदान करते हैं :—

जूनियर डिबीजन (सेना सहाय)

तृतीय अधिकारी के रूप में

तमिल नाडु

पोनिया जोन ध्यागराज (एन० सी० सी० जे०/51437), 2 अक्टूबर, 1969।

(भारत के राजपत्र दिनांक 6 मई 1967 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1289 दिनांक 23 अप्रैल, 1967 को, जहाँ तक वह उपर्युक्त अधिकारी से सम्बन्धित है, एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।)

वी० फराव, डाइरेक्टर आफ पर्सनल

सं० 2729, दिनांक 22 सितम्बर, 1970—निम्नलिखित को राष्ट्रीय कैडेट कोर में कर्नल का आनरेरी पद प्रदान किया जाता है और जब तक वे विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर बने रहेंगे तब तक के लिये उन्हें पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में राष्ट्रीय कैडेट कोर का आनरेरी कर्नल कमांडेंट नियुक्त किया जाता है :—

डा० मोहिन्द्र सिंह रधावा, डी० एस० सी०, एफ० एन० आई०, आई० सी० एस० (सेवा निवृत्त) उपकुलपति, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना—28 अक्टूबर, 1968।

टी० पी० खोसला, उप-सचिव (बजट)

थल सेना विभाग

सं० 2730, दिनांक 28 सितम्बर, 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

कमान और स्टोर

सोिनियर डायरेक्टिंग स्टाफ एन० डी० सी० के रूप में

मेजर जनरल नरीन्द्र सिंह (आई० सी० 549), 2 सितम्बर, 1970।

ब्रिगेडियर आई० एम० बोहरा (आई० सी० 1792) को जी० ओ० सी० एक माऊन्टेन डिव के रूप में नियुक्त किया जाता और मेजर जनरल का कार्यकारी पद दिया जाता है, 18 अप्रैल, 1970।

पी० कृष्ण मूर्ती, संयुक्त सचिव

सं० 2731, दिनांक 29 सितम्बर, 1970—भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 17100/डी जी० ए० एफ० एम० एस०/डी० जी-1 (एक्स)/6910/IV/डी० (मेड) दिनांक 31 दिसम्बर, 1965, द्वारा यथा परिवर्तित थल सेना अनुदेश 191/62 के अधीन राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

(नियमित सेना)

(स्थायी कमीशन)

कपटेन के रैंक में (परख पर)

चन्द्र शेखर पन्त, एम० बी० बी० एस०, (एम० आर० 2705) सैनिक डाक्टरी कोर, 15 मार्च, 1970।

लेफ्टिनेंट के रैंक में (परख पर)

सबीर हुसन अन्मारी, एम० बी० बी० एस० (एम० आर० 2656) सैनिक डाक्टरी कोर, 15 जनवरी, 1970।

सं० 2732, दिनांक 25 सितम्बर, 1970—थल सेना अनुदेश 58/68 के अधीन राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

कपटेन के रैंक में

श्री कृष्ण शर्मा, एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 8382) ए० एस० सी०, 13 मई 1970।

सं० 2732-क, दिनांक 25 सितम्बर, 1970—भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 17100/डी० जी० ए० एम० एस०/डी० जी-1 (एक्स)/6910/वी० डी० (मेड) दिनांक 31 दिसम्बर, 1965 द्वारा यथा परिवर्तित, थल सेना अनुदेश 208/59 के अधीन राष्ट्रपति 3 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

लेफ्टिनेंट के रैंक में (परख पर)

रामास्वामी चन्द्रन, एम० बी० बी० एस० (एम० एस० 8351), ए० एम० सी०, 15 मार्च, 1970।

सं० 2733, दिनांक 25 सितम्बर, 1970—यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 9/एम/63 के अधीन राष्ट्रपति सैनिक डाक्टर कोर में निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन (परख पर)

2/लेफ्टिनेंट के रैंक में

नटराजन कल्याणमुन्दरम, ए० एम० सी०, 14 अगस्त, 1969 ।

सं० 2734, दिनांक 25 सितम्बर, 1970—राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 222/57, यथा संशोधित के अधीन निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा (अस्थायी)

लेफ्टिनेंट के रूप में

कुमारी पैली किजाफेभागम मरियाकुटी एन० एस० 14578, 11 जुलाई, 1969 ।

सं० 2735, दिनांक 25 सितम्बर, 1970—राष्ट्रपति, ए० आई० 222/57 के उपबंधों के अधीन जो रक्षा मंत्रालय पत्र सं० 15158/डी० जी० ए० एफ० एम० एस/एम० एन० एस/1638/एस०/एड (मैडिकल) दिनांक 31 दिसम्बर 1968 के साथ पढ़ा जाय । निम्नलिखित नर्सिंग अफसर की उसके नाम के सामने दी गई तारीख से वेतन तथा पदोन्नति के लिए वरिष्ठता को पूर्व तारीख सहित नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा (अस्थायी)

लेफ्टिनेन्ट के रूप में

कुमारी सगन्ती जया मन्था बाई एन० एस० 14725, 14 फरवरी 1970 ।

दिनांक 14 फरवरी, 1968 से वरिष्ठता सहित ।

आर० एस० चौधरी, अवर सचिव

सं० 2736, दिनांक 25 सितम्बर, 1970—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित नियुक्ति की :—

सैनिक इंजीनियर सेवाएं

श्री के० टी० धोराएस्वामी, स्थाई ए० ओ०-I को अपने कार्य के अतिरिक्त एस० ए० ओ०-I के वर्तमान कार्यों को करने के लिए कि 4 मई 70 से 26 जून 70 तक, सी० ई० एस० सी० पूना के कार्यालय में नियुक्त किया गया ।

स्थायी ई० ई० और अस्थायी एस० ई० को स्थायी एस० ई० बनाया जाता है ।

श्री बालकृष्ण बेरी, 8 सितम्बर, 1967 ।

स्थाई ए० ई० ई० और अस्थाई ई० ई० स्थाई ई० ई० बनाये जाते हैं :—

श्री आई० एम० वेदी, 10 जून, 1967 ।

बी० ए० वलियापरमपिल, अवर सचिव

सं० 2737, दिनांक 28 सितम्बर, 1970—परख-अवधि पूरी होने पर, राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर की नियुक्ति को पक्का करते हैं :—

नियमित सेना

(स्थायी कमीशन)

लेफ्टिनेन्ट के० एम० जार्ज (एन० टी० आर० 16184), सैनिक डाक्टर कोर, (गैर-सकनीकी), 26 दिसम्बर, 1967 ।

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टन (श्रीमती) माधुरी न्यायपथी (दूर्बनाम) के० माधुरी (एम० एस० 7468), ए० एम० सी०, 6 दिसम्बर, 1965 ।

कैप्टन जी० एन० कट्टी (एम० एस० 7548), ए० एम० सी० 21 मार्च, 1966 ।

कैप्टन जे० एस० गुग्गा (एम० एस० 7581), ए० एम० सी०, 20 जून, 1966 ।

कैप्टन जी० सिंह (एम० एस० 7644), ए० एम० सी०, 24 जुलाई, 1966 ।

कैप्टन एच० एल० साहू (एम० एस० 7938), ए० एम० सी०, 13 मई, 1968 ।

कैप्टन डी० डी० त्रिपाठी (एम० एस० 8052) ए० एम० सी०, 27 जनवरी 1969 ।

सं० 2738, दिनांक 28 सितम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नल के रैंक में

एच० सी० बरबिया (एम० आर०-827) (4369) सैनिक डाक्टर कोर, 1 मई 1970 ।

के० एल० सोबती, (एम० आर०-951), सैनिक डाक्टर कोर, 12 जुलाई 1970 ।

लेफ्टिनेन्ट से कैप्टन के रैंक में

पी० एस० आर० आयर (एम० आर०-2440) सैनिक डाक्टर कोर, 4 दिसम्बर 1968, 3 मई 1966 से ज्येष्ठता दी जायगी ।

ए० के० चौधरी (एम० आर०-2520) सैनिक डाक्टर कोर 7 मई 1969, 13 जुलाई 1966 से ज्येष्ठता दी जायगी ।

जी० एन० कट्टी (एम० आर०-2533), सैनिक डाक्टर कोर, 7 मई 1969, 18 जनवरी 1967 से ज्येष्ठता वेतन हुए ।

टी० एन० गोविन्दाराजन, (एन० टी० आर०-16258), सैनिक डाक्टर कोर (गैर-सकनीकी), 13 मई 1970 ।

एम० बी० दत्त, (एन० टी० आर०-16267) सैनिक डाक्टर कोर (गैर-सकनीकी), 13 मई 1970 ।

2 लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट के रैंक में

टी० एन० गोविन्दाराजन, (एन० टी० आर०-16258), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी), 5 मई 1970, 13 मई 1965 से ज्येष्ठता देते हुए।

एम० चन्द्र, (एन० टी० आर०-16262), सैनिक डाक्टरी कोर, (गैर-तकनीकी), 5 मई 1970, 15 मार्च 1966 से ज्येष्ठता देते हुए।

ओ० पी० वधवा, (एन० टी० आर०-16263), सैनिक डाक्टरी कोर, (गैर-तकनीकी), 5 मई 1970, 3 मई 1967 से ज्येष्ठता देते हुए।

ए० विजयन, (एन० टी० आर०-16264) सैनिक डाक्टरी कोर, (गैर-तकनीकी), 4 मई 1970, 20 जून, 1968 से ज्येष्ठता देते हुए।

एम० एस० राना, (एन० टी० आर०-16265), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी), 5 मई 1970, 20 जून 1968 से ज्येष्ठता देते हुए।

जी० समसन, (एन० टी० आर० 16266), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी) 4 मई 1970, 20 जून 1968 से ज्येष्ठता देते हुए।

नियमित सेना**(आपाती कमीशन)****कैप्टन से स्थायी-समान मेजर के रैंक में**

पी० नारायन, (एम०-30568), सैनिक डाक्टरी कोर, 14 अगस्त 1970

लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रैंक में

ए० चतुरवेदी, (एम० 30856) सैनिक डाक्टरी कोर, 7 जनवरी 1966।

(24 जून 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 1753 दिनांक 8 जून 1967 को, जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है रद्द किया जाता है।

डी० एस० मिश्रा, (एम०-50881), सैनिक डाक्टरी कोर, 19 फरवरी 1966।

(28 अक्टूबर 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 2912 दिनांक 7 अक्टूबर 1967 को, जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है रद्द किया जाता है।

एच० सुतराधर, (एम-30873) सैनिक डाक्टरी कोर, 2 मार्च 1966।

(11 नवम्बर 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 3071 दिनांक 28 अक्टूबर 1967 को, जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है)।

आर० पी० सिंह (एम०-30858) सैनिक डाक्टरी कोर, 14 मार्च 1966 (एक जुलाई 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 1811 दिनांक 19

जून 1967 को, जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है रद्द किया जाता है)।

टी० बी० राधाकृष्णन (एम०ब30872) सैनिक डाक्टरी कोर, 2 अप्रैल 1966।

(1 जुलाई 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 1812 दिनांक 12 जून 1967 को, जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

ए० के० चौधरी, (एम-30764), सैनिक डाक्टरी कोर, 13 जुलाई 1966।

(1 जुलाई 1967 और 18 नवम्बर 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 1812 दिनांक 12 जून 1967 और सं० 3141 दिनांक 3 नवम्बर 1967 को जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है रद्द किया जाता है)।

जे० मुन्द (एम०-30979) सैनिक डाक्टरी कोर, 22 सितम्बर 1966।

(12 अगस्त 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 2170 दिनांक 29 जुलाई 1967 को, जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है रद्द किया जाता है)।

पी० डी० भास्कर राजा, (एम०-30902) (10054), सैनिक डाक्टरी कोर, 6 अक्टूबर 1966।

(1 जुलाई 1967) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 1812 दिनांक 12 जून 1967 को, जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है)।

ए० बी० रायडू (एम०-30982) सैनिक डाक्टरी कोर, 22 फरवरी 1967।

(एक जुलाई 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 1812 दिनांक 12 जून 1967 को, जहां तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है)।

अल्पकालीन कमीशन**कैप्टन से अर्ध-स्थायी मेजर के रैंक में**

बी० एम० अग्रवत (एम० एस०-6781), ए० एम० सी०, 23 दिसम्बर 1969।

लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रैंक में (परख पर)

जी० एन० कट्टी (एम० एस०-7548), ए० एम० सी०, 18 जनवरी 1967।

(28 अक्टूबर 1967 को प्रकाशित भारत के राजपत्र में रक्षा मन्त्रालय की अधिसूचना सं० 2912 दिनांक 7 अक्टूबर 1967 को जहां तक इस अफसर से संबंधित है, रद्द किया जाता है)।

आर० एस० चौधरी, अवसर सचिव

सं० 2739, दिनांक 28 सितम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं।

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

गारव ब्रिगेड

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार श्री राम (जे० सी०-19981), 3 सितम्बर 1969।

नायब सूबेदार कृष्णा बहादुर राय (जे० सी०-30932) 12 नवम्बर 1969

नायब सूबेदार राजबक्श सिंह (जे० सी०-31104), 11 मई 1970।

सैनिक शिक्षा कोर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-19433), 1 जुलाई, 1970।

नायब सूबेदार देवी सिंह (जे० सी०-19435), 7 जुलाई, 1970।

नायब सूबेदार कंवर सिंह (जे० सी०-19336), 10 जुलाई 1970।

नायब सूबेदार परगट सिंह (जे० सी०-19438), 20 जुलाई 1970।

नायब सूबेदार लेखराज सिंह बिष्ट (जे० सी०-19439), 24 जुलाई, 1970।

पी० के० कुमारन, अवसर सचिव

सं० 2740, दिनांक 30 सितम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक आर्डनेन्स कोर

सूबेदार मेजर क्लर्क भण्डार (कंट्रोल) के रैंक में

सूबेदार सुधीर चन्द्र बनर्जी, (48916-जे० सी०), 1 जुलाई 1970।

सूबेदार वी० गुरुदासन (48926-जे० सी०), 7 जुलाई 1970।

सूबेदार शेर सिंह (48967-जे० सी०), 10 जुलाई, 1970।

सूबेदार ए० त्यागराजन (48365-जे० सी०), 22 जुलाई 1970।

सूबेदार मेजर स्टोर कीपर टेक्निकल के रैंक में

सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (जी० एस० एण्ड सी०) सेवा सिंह (38152-जे० सी०), 27 जून, 1970।

सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (जी० एस० एण्ड सी०), करम सिंह (38574-जे० सी०), 1 जुलाई, 1970।

सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०) ललित मोहन पाल (38197-जे० सी०), 1 जुलाई, 1970।

सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (वेपन), एम तिरुवेंकटाशारी (40055-जे० सी०), 11 जुलाई, 1970।

सूबेदार क्लर्क सामान्य ड्यूटी के रैंक में

नायब सूबेदार दिलीप सिंहजी (जे० सी०-25374), 7 जुलाई, 1970।

नायब सूबेदार, शरम सिंह (जे० सी०-25376), 7 जुलाई 1970।

नायब सूबेदार, दया शंकर अवस्थी (जे० सी०-25377), 19 जुलाई 1970।

नायब सूबेदार बाबा दास (जे० सी०-25382), 21 जुलाई 1970।

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जे० सी०-31548), 29 जुलाई 1970।

सूबेदार क्लर्क भण्डार (कंट्रोल) के रैंक में

नायब सूबेदार, मेघ राज (जे० सी०-22820), 30 जून, 1970।

नायब सूबेदार अभिय भूषण चक्रवर्ती (जे० सी०-22754), 9 जुलाई 1970।

नायब सूबेदार, रमणी कान्त नाग (जे० सी०-22755), 11 जुलाई 1970।

नायब सूबेदार, गोविन्द गणेश कुलकर्णी (जे० सी०-22756), 12 जुलाई 1970।

नायब सूबेदार सुकुमार सेन (जे० सी०-17963), 13 जुलाई 1970।

नायब सूबेदार, डी० वेंकटा मेठी (जे० सी०-22762), 14 जुलाई 1970।

नायब सूबेदार, रतजीत सिंह (जे० सी०-22759), नायब सूबेदार ए० सूर्य राव (जे० सी०-22760), 16 जुलाई, 1970।

सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल के रैंक में

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम्प्लीशन), कृष्ण मंगलकर (जे० सी०-18094), नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (जी० एस० एण्ड सी०), जी जनार्दनन् पिल्ले (जे० सी०-18210), नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०) गुरुवचन सिंह, (जे० सी०-18095), 1 जुलाई 1970।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०) बलबीर सिंह (जे० सी०-18096), 8 जुलाई 1970।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (जी० एस० एण्ड सी०), एन० सी० सरकार (जे० सी०-19196), 10 जुलाई 1970।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम्प्लूनिशन), राम नरेश तिवारी (जे० सी०-18100), 17 जुलाई 1970 ।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०), अरुंधेन्दु भट्टाचार्य, (जे० सी०-18101), 19 जुलाई 1970 ।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (बेपन) आनन्द प्रकाश (जे० सी०-19259), 20 जुलाई 1970 ।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०), गुरुबचन सिंह (जे० सी०-19204), 22 जुलाई 1970 ।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (एम० टी०), सुरेश चन्द्र देवनाथ (जे० सी०-19205), 23 जुलाई 1970 ।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर टेक्निकल (जी० एस० एण्ड सी०), अतर सिंह (जे० सी०-19203), 24 जुलाई 1970 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार स्टोर हेण्ड टेक्निकल रामेश्वर प्रसाद महतो (जे० सी०-37053), 1 जुलाई 1970 ।

नायब सूबेदार स्टोर एण्ड टेक्निकल शाउल (जे० सी०-36490), 15 जुलाई 1970 ।

नायब सूबेदार स्टोर हेण्ड सामान्य ड्यूटी दीन दयाल (जे० सी०-36562), 16 जुलाई, 1970 ।

नायब सूबेदार स्टोर हेण्ड टेक्निकल सुन्दर सिंह (जे० सी०-36491), 27 जुलाई 1970 ।

बिजली और मशीनी इंजीनियर कोर

सूबेदार आर्मामेंट आर्ट और आरटीजम (इलिजिबिल कटेगरीज) के रैंक में

नायब सूबेदार एन० ए० देशपांडे (जे० सी०-14770), नायब सूबेदार जनक सिंह (जे० सी०-16217), नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०-16243), नायब सूबेदार परीतम सिंह (जे० सी०-16261), नायब सूबेदार प्यारा सिंह (जे० सी०-17754), नायब सूबेदार चरन सिंह (जे० सी०-19394), नायब सूबेदार पी० टी० भेलायुधा मेनन (जे० सी०-18669), नायब सूबेदार जगदीश राम (जे० सी०-19589), नायब सूबेदार सागली राम (जे० सी०-19060), नायब सूबेदार के० एम० श्रीविक्रमन-नायर (जे० सी०-23251), 1 अगस्त 1970 ।

टी० जेकब, अवर सचिव

सं० 2741, दिनांक 26 सितम्बर, 1970—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं :—

नियमित सेना

सैनिक सेवा कोर (मोटर परिवहन)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भूप सिंह (जे० सी०-43363), नायब सूबेदार जगनाथन (जे० सी०-43364), 7 जुलाई 1970 ।

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जे० सी०-43366), नायब सूबेदार साध राम (जे० सी०-43367), 15 जुलाई 1970 ।

नायब सूबेदार मोडस (जे० सी०-43368), 26 जुलाई 1970 ।

नायब सूबेदार पल्लारी वेलायुधन नायर (जे० सी०-43369), 30 जुलाई 1970 ।

सप्लार्ई

सूबेदार (क्लर्क सामान्य ड्यूटी) के रैंक में

नायब सूबेदार चन्दर भान (जे० सी०-25055), 2 अक्तूबर 1969 ।

नायब सूबेदार परशोत्तम लाल दत्ता (जे० सी०-41044), नायब सूबेदार अरुजन देव मिदधा (जे० सी०-42775), नायब सूबेदार राम बहादुर शर्मा (जे० सी०-42776), नायब सूबेदार शेर सिंह कटोच (जे० सी०-42777), नायब सूबेदार जीवन राम (जे० सी०-42778), नायब सूबेदार अमीर चन्द (जे० सी०-42779), नायब सूबेदार सोहन लाल (जे० सी०-42780), नायब सूबेदार धरम पाल (जे० सी०-42781), नायब सूबेदार मरचेरिल बर्की मथाय (जे० सी०-42782), नायब सूबेदार गोविन्दराज बालसुब्रमनियम (जे० सी०-43095), नायब सूबेदार ठाकेर दास (जे० सी०-43096), नायब सूबेदार आनन्त राम (जे० सी०-43097), नायब सूबेदार चन्दरहास (जे० सी०-43098), नायब सूबेदार राजा सिंह (जे० सी०-43099), नायब सूबेदार कालीपद सिद्धान्ता (जे० सी०-43100), नायब सूबेदार सारधा राम (जे० सी०-43101), 25 अप्रैल 1970 ।

नायब सूबेदार राजनारायण पान्डेय (जे० सी०-43102), 29 अप्रैल 1970 ।

रिमाउण्ट एवं बैटमरी कोर

रिसालदार मेजर (बी० ओ०) के रैंक में

रिसालदार (बी० ओ०) राम लखन सिंह (आर० बी०-7058), 7 दिसम्बर 1968 ।

रिसालदार (बी० ओ०) ईश्वर सिंह (आर० बी०-7061) 25 नवम्बर 1969 ।

रिसालदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब रिसालदार क्लर्क सतपाल सिंह (आर० बी०-7097), 18 जून 1969 ।

वि० एम० राघवन, अवर सचिव

सं० 2742, दिनांक 28 सितम्बर 1970 —राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को 7 मई 1969 से सैनिक डाक्टरी कोर, में अपने आपाती कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और रक्षा मन्त्रालय के पत्र सं० 17100/डी० जी० ए० एफ० एम० एम०/डी० जी० 1(एक्स)/6910/IV/डी० (मेड) दिनांक 31 दिसम्बर 1965, द्वारा यथा परिवर्तित थलसेना अनुदेश

191/62 के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना
(स्थायी कमीशन)
लेफ्टिनेंट के रैंक में

अनिल कुमार चौधरी, एम० बी० बी० एस० (एम०-30764) सैनिक डाक्टरी कोर, वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28 अक्टूबर, 1965 से दी जायेगी।

सं० 2743, दिनांक 25 सितम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को 4 दिसम्बर 1968 से सैनिक डाक्टरी कोर में अपने अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 17100/डी० जी० ए० एफ० एम० एस०/डी० जी०-1(एक्स)/6910/IV/डी० (मेड०) दिनांक 31 दिसम्बर, 1965, द्वारा यथा परिवर्तित थलसेना अनुदेश 191/62 के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं और सं० 17100/डी० जी० ए० एफ० एम० एस०/डी० जी०-1(एक्स)/2000/डी० (मेड०) दिनांक 18 अप्रैल 1970।

नियमित सेना
(स्थायी कमीशन)
लेफ्टिनेंट के रैंक में

परमेश्वर सुन्दर राजन आयर, एम० बी० एस० (एम० एस०-7549 अब एम० आर०-2440) सैनिक डाक्टरी कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता, 21 मार्च 1966 से दी जायेगी।

सं० 2744, दिनांक 28 सितम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को 7 मई 1969 से सैनिक डाक्टरी कोर, में अपने अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 17100/डी० जी० ए० एफ० एम० एस०/डी० जी०/(एक्स)/6910/डी० (मेड०) दिनांक 31 दिसम्बर 1965 द्वारा यथा परिवर्तित थलसेना अनुदेश 191/62 के उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना
(स्थायी कमीशन)
लेफ्टिनेंट के रैंक में

गुरुराज नारायणाचार्य कट्टी, एम० बी० बी० एस०, (एम० एस०-7548 अब एम० आर०-2533) सैनिक डाक्टरी कोर वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21 मार्च, 1966 से दी जाएगी।

सं० 2745, दिनांक 28 सितम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को 12 मई 1970 से सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी) में अपने अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थलसेना अनुदेश 231/62 के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना
(स्थायी कमीशन)
लेफ्टिनेंट के रैंक में

मस्त बहादुर दत्त, (एन० टी० एस०-17108 अब एन० टी० आर०-16267), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी), पदोन्नति

के लिये ज्येष्ठता 13 मई 1963 और वेतन के लिये 13 मई 1961 से दी जायेगी।

सं० 2746, दिनांक 28 सितम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को 5 मई 1970 से सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी) में अपने अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थलसेना अनुदेश 231/62 के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना
(स्थायी कमीशन)
लेफ्टिनेंट के रैंक में

तिरुमानी नट्टेसा गोविन्दाराजन, (एन० टी० एस०-17120 अब एन० टी० आर०-16258), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी), वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 13 मई 1963 से दी जायेगी।

महेश चन्द्र, (एन० टी० एस०-17207 अब एन० टी० आर०-16262) सैनिक डाक्टरी कोर, (गैर-तकनीकी), वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 15 मार्च 1964 से दी जायेगी।

ओम प्रकाश वघ्न्या, (एन० टी० एस०-17240 अब एन० टी० आर०-16263), सैनिक डाक्टरी कोर, (गैर-तकनीकी) वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 3 मई, 1965 से दी जायेगी।

अलियात विजयन, (एन० टी० एस०-17246 अब एन० टी० आर०-16264), सैनिक डाक्टरी कोर, (गैर-तकनीकी) वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 20 जून, 1966 से दी जायेगी।

मेहुबान सिंह राना, (एन० टी० एस०-17248 अब एन० टी० आर०-16265), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी), वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 20 जून, 1966 से दी जायेगी।

ज्ञानमाणिक्यम समसन, (एन० टी० एस० 17249 अब एन० टी० आर०-16266), सैनिक डाक्टरी कोर (गैर-तकनीकी) वेतन और पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 20 जून, 1966 से दी जायेगी।

सं० 2747, दिनांक 25 सितम्बर 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को असैनिक सेवा पुनर्ग्रहण करने के लिए कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना
आपाती कमीशन

कैप्टन (श्रीमती) पी० ए० ऐसा बीबी (एम०-30665) सैनिक डाक्टरी कोर, 3 अप्रैल 1969।

सं० 2748, दिनांक 25 सितम्बर 1970—भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० 17100/डी० जी० ए० एफ० एम० एस०/डी० जी०/(एक्स)/6910/V/डी० (मेड०) दिनांक 31 दिसम्बर, 1965 द्वारा यथा परिवर्तित थलसेना अनुदेश 208/59 के अधीन

निम्नलिखित अफसर के, 10 अप्रैल, 1970 से सैनिक डाक्टरी कोर में 5 वर्ष के लिए युगपत नियुक्त हो जाने के फलस्वरूप राष्ट्र-पति उन्हें सैनिक डाक्टरी कोर में परब पर 2/लेफ्टि० के रैंक में अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

लेफ्टिनेन्ट के रैंक में (परब पर)

नटराजन कल्याण सुन्दरम्, एस० बी० बी० एस०, (एम० एस०-8355) ए० एम० सी० ।

आर० एस० चौधरी, अवर सचिव

सं० 2749, दिनांक 21 अगस्त, 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उसकी निजी प्रार्थना पर कमीशन त्यागने की अनुमति देते हैं ।

(प्रादेशिक सेना)

प्रादेशिक कमीशन

लेफ्टि० एस० गणेशन (टी० ए०-41000), इन्जीनियर्स, 9 जून, 1970 ।

गणेश स्वरूप, अवर सचिव

सं० 2750, दिनांक 28 सितम्बर, 1970—निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने लिखित तिथि को सेवा से निवृत्त हुए :—

नियमित सेना

(ए० ओ० सी०)

श्री सुन्दर प्रकाश स्थायी आर्डनेंस अधिकारी सिविलियन (प्रशासन) 3 अगस्त, 1970 (पूर्वाह्न) ।

एस० के० काक, अवर सचिव

सं० 2751, दिनांक 29 सितम्बर, 1970—निम्नलिखित आफिसर को जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा के अनुसार उसके नाम के सामने दी गई तारीख से नौकरी से पदच्युत कर दिया गया है :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के० पी० जी० नायर (आई० सी० 7972) 10 जैक रिफ, 18 सितम्बर 1968 (एफ० एन०) ।

सी० वी० नारायणन, अवर सचिव

सं० 2752, दिनांक 25 सितम्बर, 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को असैनिक सेवा पुनर्ग्रहण करने के लिए कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं ।

नियमित सेना

आपाती कमीशन

कैप्टिन गोपालकृष्णन (एम० एस० 7375), ए० एम० सी०, 27 जून, 1970 ।

कैप्टिन बी० सिंह (एम० एस० 7361), ए० एम० सी०, 1 जुलाई, 1970 ।

सं० 2753, दिनांक 25 सितम्बर, 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित नर्सिंग अफसर को राज्य मेडिकल सेवा में वापस भेजते हैं :—

नियमित सेना

मिलिट्री नर्सिंग सेवा (अस्थायी)

लेफ्टिनेन्ट (कुमारी) बी० जे० अन्ना (एन० एस० 14367), 28 अगस्त, 1970 ।

शुद्धि-पत्र

सं० 2754, दिनांक 25 सितम्बर 1970—19 अक्टूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 263, 3 दिनांक 22 सितम्बर, 1968 में शीर्षक 'नियमित सेना', उपशीर्षक 'अल्पकालीन कमीशन' तथा 'लेफ्टी० से कैप्टेन (परब पर) के अन्तर्गत 'एस० आर० घोष (एम० एस० 7594) ए० एम० सी०' के नाम के सामने "21 दिसम्बर, 1966" की जगह "25 जून, 1966" पढ़ा जाए ।

आर० एस० चौधरी, अवर सचिव

सैनिक इंजीनियर सेवायें

सं० 2756, दिनांक 28 सितम्बर, 1970—शुद्धि-पत्र—भारत के राजपत्र सं० 34, दिनांक 22 अगस्त, 1970 को निम्न प्रकार से शुद्ध किया जाता है :—

पृष्ठ 1015, भाग I, अनुभाग 4 :

राजपत्र सं० 2176, दिनांक 4 अगस्त, 1970

"अस्थायी असिस्टेंट आर्चीटेक्ट ममान आर्चीटेक्ट बनाये जाते हैं" के स्थान पर

"अस्थायी असिस्टेंट आर्चीटेक्ट स्थायी समान असिस्टेंट आर्चीटेक्ट बनाये जाते हैं" पढ़ा जाये ।

बी० ए० बलयापरमपिल, अवर सचिव

(नौसेना विभाग)

सं० 2757, दिनांक 29 सितम्बर, 1970—राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० ओ० एफ०/3478/66/एन० एच० क्यू०/1891/एस०/डी० (एन० II), तारीख 4 अगस्त, 1967 तथा सं० ओ० एफ०/3492/68 एन० एच० क्यू०/12376/डी० (एन०), तारीख 24 अगस्त, 1969 के अन्तर्गत भारतीय नौसेना की इन्जीनियरी ब्रांच में निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से की। पदोन्नति के लिए उनकी संग्रहणीय सेवा प्रत्येक नाम के सामने दी गई तारीख से गिनी जाएगी।

नौसेना विभाग

(स्थायी क्राडर)

इंजीनियरी ब्रांच

कार्यकारी सब लेफ्टिनेंट के पद पर (परखावधि पर)

	नियुक्ति की तारीख	पदोन्नति के लिए संग्रहणीय सेवा गिने जाने की तारीख
वीराप्पा रामनाथन	1-7-1967	5-1-1969
कृष्ण कुमार मेहरोत्रा	1-7-1967	23-12-1968
सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ	1-7-1967	15-7-1968
प्रवीण चन्द श्रीमल	1-7-1967	15-7-1968
विजय कुमार भाटिया	1-7-1967	15-7-1968
मुकन्दन राधाकृष्णन	1-7-1967	15-7-1968
कुडिगे सुदामा शिनाय	1-7-1967	5-8-1968
जयपाल सिंह बुंदेला	3-7-1967	15-7-1968
राघवन पिल्लै कृष्ण पिल्लै	8-7-1967	5-8-1968
किञ्जाकके वारियथ कुन्हिक्कणन	10-7-1967	3-8-1968
बलविन्दर सिंह	17-7-1967	21-7-1968
बलवन्त सिंह ठकराल	17-7-1967	18-7-1968
गुलशन कुमार मलहोत्रा	17-7-1967	15-7-1968
गुलशन राय सरना	17-7-1967	15-7-1968
वीरेन्द्र नाथ गुलाटी	17-7-1967	15-7-1968
अरविन्द लोचन	17-7-1967	15-7-1968
हुसेन मुहम्मद	17-7-1967	28-7-1968
सूरज भान कैलोनिया	30-9-1967	15-7-1968
अरुण भीमाराव पाटिल	24-12-1967	21-7-1968
योगेन्द्र पाल	24-12-1967	2-8-1968
अविनाश मंजानाथ तेलंग	24-12-1967	15-7-1968
प्रवाश चन्द्र मिश्र	24-12-1967	28-7-1968
वेद प्रकाश वर्मा	24-12-1967	20-7-1968
देवगुप्तापु शोशगिरी राव	24-12-1967	15-7-1968
तेरत्तनाथ इतूप पुन्नन	24-12-1967	5-8-1968
कुरिशिकल टॉमस ऑस्टिन क्लेमेंट	24-12-1967	5-8-1968
कोलार हरि कुमार	22-3-1968	4-1-1969

जवाहर सिंह, अवर सचिव

सं० 2758, दिनांक 28 सितम्बर, 1970—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित नियुक्ति की :—

श्री सी० जे० डी०-सूजा, स्थायी यू० डी० सी०, स्थानापन्न ए० ए० एस० ओ० को उनके अपने कार्यों के साथ-साथ उप-आयुध पूर्ति अफसर कोटि 1 के सम्पूर्ण कार्यों को करने के लिए श्री एन० ए० मालवाड़े, उप-आयुध पूर्ति अफसर कोटि 1 के स्थान पर जिन्हें 22 जुलाई, 1968 से 31 अक्टूबर, 1968 तक छुट्टी प्रदान की गई।

श्री डब्ल्यू० रोड्रिग्स, स्थायी फोरमैन की स्थानापन्न सिविलियन तकनीकी सहायक (कस्ट्रक्शन)— 1-8-1970।

वह दो वर्ष की परखावधि पर रहेंगे।

श्री एस० सी० अधिकारी, स्थायी सिविलियन स्टोरकीपर ग्रेड-I को 16-7-1970 से, आगामी आदेश पर्यन्त स्थानापन्न सी० जी० ओ० (इक्विप०) के रूप में।

उपर्युक्त अफसर दो वर्ष की अवधि के लिए परखाधीन रहेंगे।

वी० ए० वनियापरमपिल, अवर सचिव

(एयर ब्रांच)

सं० 2759, दिनांक 28 सितम्बर, 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को विंग कमांडर के मूल रैंक में पदोन्नत करते हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

इक्विपमेंट ब्रांच

स्वा० लीडर (कार्यकारी विंग कमांडर) एन० के० शिर-पूरकर (3764), बी० एस० लखनपाल (3706), एच० आर० वासदेव (3758)—1 अप्रैल, 1970।

सं० 2760, दिनांक 17 सितम्बर, 1970—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को, नियमित एयर फोर्स से स्वेच्छापूर्वक निवृत्त होने पर, नियमित एयर फोर्स रिजर्व में स्थानान्तरित करते हैं :—

इंडियन एयर फोर्स

टेक्नि० इंजी० ब्रांच

स्वा० लीडर जी० पेरियालवर (5362), 29 जून, 1970 से 28 जून, 1975।

एस० पी० राय, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE*New Delhi, the 17th October 1970**Department of Defence Production*

No. 2720, dated 24th Sept. 1970.—On transfer from the the Min. of Railways, the President is pleased to appoint Dr. Jasmer Singh, IRAS, as Dy. Planning Officer in the Dept. of Def. Pron. w.e.f., 20th May, 1970.

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

(Army Branch)

No. 2721, dated 13th Aug. 1970.—The President is pleased to make the following appointments :—

Office of the C.A.O.

Shri H. C. Pandey, Pmt. Supdt., to be C.S.O., in an offg. capacity from 8th June 1970 to 10th July 1970 (AN), vice Shri B. G. Banerjee, on leave.

Shri L. N. Khanna, Pmt. Asst., to be Supdt., in an offg. capacity from 8th June 1970 to 10th July 1970 (AN), vice Shri H. C. Pandey, promoted.

Shri M. L. Gogia, Pmt. Asst., to be Supdt., in an offg. capacity from 8th June 1970 to 31st July 1970 (AN), vice Shri I. P. Goyal, on leave.

Shri K. G. Dewan, Pmt. Asst., to be Supdt., in an offg. capacity from 20th June 1970 to 25th July 1970 (AN), vice Shri N. S. Jain, on leave.

D. J. BARAT, Asstt. C.A.O.

Defence Research & Development Organisation

No. 2722, dated 24th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following appointment :—

Defence Science Service

Dr. B. D. Nag Chaudhuri to be Scientific Adviser to the Minister of Defence and Director General of Defence Research and Development, Min. of Def., New Delhi on a contract for a period of 5 years and will have the ex-officio status of Secy. to the Govt. in areas of his responsibility, 1st July 1970 (F.N.).

Min. of Def. Notn. No. 1967, dated 4th July 1970 published in G. of I. Part I, Section IV, Issue No. 31 dated 1st Aug. 1970 in so far it relates to Dr. B. D. Nag Chaudhuri is hereby cancelled.

No. 2723, dated 24th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following promotions :—

Defence Science Service

Shri S. K. BASU, Quasi Pmt. J.S.O., Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences, Delhi, to be offg. S.S.O., Gde. II, in the same establishment—3rd July 1970 (F.N.).

Dr. P. C. GUPTA, Temp. J.S.O., Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences Delhi, to be offg. S.S.O., Gde. II, in the same establishment—3rd Jul. 1970 (FN).

Dr. N. K. MALHOTRA, Temp. J.S.O., Dtc. of Scientific Evaluation, R&D Orgn., HQrs., New Delhi, to be Offg. S.S.O., Gde. II, in the same Dte.—3rd July 1970 (FN).

Shri D. P. BATRA, Temp. J.S.O., Scientific Analysis Group, R&D Orgn., HQrs., New Delhi, to be Offg. S.S.O., Gde. II, in the same establishment—3rd July 1970 (FN).

Shri SATISH CHANDER MAINI, Temp. J.S.O., Armament Research and Development Establishment, Poona, to be Offg. S.S.O., Gde. II, in the same establishment—8th July 1970 (FN).

Shri VISHNU KUMAR GUPTA, Temp. J.S.O., Armament Research and Development Establishment, Poona, to be Offg. S.S.O., Gde. II, in the same establishment—8th July 1970 (FN).

Shri S. MUKERJEE, Temp. J.S.O., R&D Establishment (Engrs.), Digbi, Poona to be Offg. S.S.O., Gde. II, in the same establishment—8th July 1970 (FN).

Shri PRATAP CHANDRA SAXENA, Temp. J.S.O., Armament Research and Development Establishment, Poona, to be Offg. S.S.O., Gde. II, in the same establishment—8th July 1970 (FN).

Shri SURJIT SINGH SOBTI, Temp. J.S.O., Armament Research and Development Establishment, Poona, to be Offg. S.S.O., Gde. I, in the same establishment—8th July 1970 (FN).

Shri Rajendra Kumar Chopra, Temp. Senior Scientific Asstt., Def. Lab., Jodhpur, to be offg. J.S.O., in the same establishment—5th Mar. 1970 (AN).

B. S. KAPOOR, Dy. Director.

Department of Defence Production

No. 2724, dated 28th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following appointments :—

Shri Palamootil Ramanpillai SOKUMAR, Civilian Officer Grade II, General Reserve Engineer Force, Roorkee to be temp. C.A.S.O., Inspectorate of General Stores, West India, BOMBAY, on probn. for two years, 13th Aug. 1970 (FN).

Ref. Notn. No. 825, dated 11th Mar. 1970, published in the G. of I. dated 4th Apr. 1970, Shri R. L. Srivastava, to continue to be temp. C.A.S.O., at the Inspectorate of General Stores, West India, Bombay from 1st Apr. 1970 (FN) to 12th Aug. 1970 (AN).

Defence Science Service

Shri Narayana Iyer GOPALAKRISHNAN, to be temp. J.S.O., Chief Inspectorate of Electronics, Bangalore on probn. for a period of two years, 6th Aug. 1970 (FN).

Shri Pramod Sadashiv DESHPANDE, temp. Senior Scientific Asstt., Vehicles Research & Development Establishment, Avadi to be temp. J.S.O., Inspectorate of Armaments, Kanpur on probn. for a period of two years, 10th Aug. 1970 (FN).

No. 2725, dated 26th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following promotion :—

Defence Science Service

Shri P. Das, temp. J.S.O., (Pmt. Asstt. Foreman), Chief Inspectorate of Small Arms, Ichapur to be offg. S.S.O., Grade II, Inspectorate of Armaments, Cossipore, 13th July 1970 (FN).

Shri Titus PHILIPS, Pmt. Chief Draughtsman, Chief Inspectorate of Textiles and Clothing, Kanpur to be offg. J.S.O., in the same establishment, 4th May 1970 (FN).

Shri Webster Godfrey EDGAR Pmt. Asstt. Foreman/Offg. Foreman, Chief Inspectorate of Textiles and Clothing, Kanpur to be offg. J.S.O., in the same establishment, 4th May 1970 (FN).

No. 2726, dated 24th Sept. 1970.—The undermentioned officers retired from service w.e.f., the date shown against their names :—

Defence Science Service

Shri S. M. Dandekar, Pmt. J.S.O./Offg. S.S.O., Gde. II, Inspectorate of General Stores, West India, Bombay, 19th Mar. 1970 (AN).

Shri W. V. Nagarkar, Offg. J.S.O. (Pmt. Senior Scientific Asstt.), Chief Inspectorate of Military Explosives, Kirkee, 9th Sep. 1970 (AN).

K. R. GOEL, Dy. Director (Pers.).

Directorate of Technical Development and Production (Air)

No. 2727, dated 23rd Sept. 1970.—The President is pleased to make the following appointment :—

Defence Science Service

Shri P. V. Narayanan to be tempy. Assistant Inspecting Officer in the Office of Chief Resident Inspector, DTD&P (Air), Sunabeda on probn. for a period of two years w.e.f., 29th Aug. 1970 (FN).

T. V. SANKARAN, Director, TD&P (Air)

National Cadet Corps

No. 2728, dated 25th Sept. 1970.—The President is pleased to grant commission to the following :—

*Junior Division (Army Wing)**To be Third Officer**Tamil Nadu*

Ponniiah Jones THIAGARAJ (NCCJ/51437), 2nd Oct. 1969.

(M. of D. Notn. No. 1289, dated 23rd Apr. 1967, published in the G. of I. dated 6th May 1967, in so far it relates to the abovenamed officer, is hereby cancelled.)

V. FERRAO, Dir. of Pers.

No. 2729, dated 22nd Sept. 1970.—The undermentioned is granted the Honv. Rank of Col. in the N.C.C., and is appointed as Honv. Col. Commandant N.C.C. in Punjab Agricultural University, Ludhiana, for the period of his appointment as Vice-Chancellor :—

Dr. MOHINDER SINGH RANDHAWA, D.Sc., F.N.I., I.C.S., (Rtd.), Vice-Chancellor, Punjab Agricultural University, Ludhiana, 28th Oct. 1968.

T. P. KHOSLA, Dy. Secy. (Bud.).

Army Branch

No. 2730, dated 28th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following appointments :—

*Comds. & Staff**To be Senior Directing Staff, N.D.C.*

Maj.-Gen. Narindar Singh (IC 549), 2nd Sep. 1970.

Brig. I. M. Vohra (IC 1792), to be G.O.C., a Mtn. Div., and is granted the acting rank of Maj. Gen., 18th Apr. 1970.

P. KRISHNAMURTI, Jt. Secy.

No. 2731, dated 29th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following appointments under AI 191 of 1962 as modified vide Min. of Def. letter No. 17100/DGAFMS/DG-1(X)/6910/IV/D(Med.), dated 31st Dec. 1965.

*REGULAR ARMY**Permanent Commission**To be Capt. (on probn.)*

Chandra Shekhar PANT, M.B., B.S., (MR-2705), A.M.C., 15th Mar. 1970.

To be Lt. (on probn.)

Sabir Husain ANSARI, M.B., B.S., (MR-2656), A.M.C., 15th Jan. 1970.

No. 2732, dated 25th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 4 years under AI 58/68.

*REGULAR ARMY**Short Service Commission**To be Capt.*

Shri Krishna SHARMA, M.B., B.S., (MS-8382), A.M.C., 13th May 1970.

No. 2732-A, dated 25th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 3 years under AI 208/59, as modified by Min. of Def. letter No. 17100/DGAFMS/DG-1(X)/6910/V/D(Med.), dated 31st Dec. 1965 :—

*REGULAR ARMY**Short Service Commission**To be Lieut. (On probn.)*

Rangaswami CHANDRAN, M.B., B.S., (MS-8351), A.M.C., 15th Mar. 1970.

No. 2733, dated 25th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following appointment in the A.M.C., under A.I. 9/S/63, as amended :—

*REGULAR ARMY**Short Service Commission on Probation**To be 2/Lt.*

Natarajan KALYANASUNDRAM, A.M.C., 14th Aug. 1969.

No. 2734, dated 25th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following appointment under AI 222/57, as amended :—

*REGULAR ARMY**Military Nursing Service (Tempy.)**To be Lt.*

Miss Pally Kizhakkebhagam, MARIKUTTY, (NS-14578), 11th Jul. 1969.

No. 2735, dated 25th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following appointment with an ante-date for seniority for pay and promotion from the date shown against her name under the provisions of AI 222/57, read with Min. of Defence letter No. 15158/DGAFMS/MNS/1638/S/D(Med.), dated 31st Dec. 1966 :—

*REGULAR ARMY**Military Nursing Service (Temporary)**To be Lt.*

(Miss) Sagantv. Jaya Santha Bai NS-14725, 14th Feb. 1970 with seniority from 14th Feb. 1968.

R. S. CHAUDHRI, Under Secy.

No. 2736, dated 25th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following appointments :—

Military Engineer Services

Shri KT DORAISWAMY, Pmt, AO Gde. I, appointed to carry out the current duties of SAO Gde., I, in addition to his own in the office of CE Southern Command POONA from 4th May 1970 to 26th Jun. 1970 (inclusive).

Pmt. EE and tempy. SE to be Pmt. SE

Shri BAL KRISHAN BERI, 8th Sep. 1967.

Pmt. AEE and tempy. EE to be Permt. EE

Shri I. S. BEDI, 10th Jun. 1967.

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

No. 2737, dated 28th Sept. 1970.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers consequent on the completion of the probationary period :—

REGULAR ARMY

Permanent Commission

Lt. K. M. George, (NTR-16184), A.M.C., (Non-Tech.), 26th Dec. 1967.

Short Service Commission

Capt. (Mrs.) MADHURI NYAYAPATHI, (nee) K. MADHURI, (MS-7468), A.M.C., 6th Dec. 1965.

Capt. G. N. Katti (MS-7548), A.M.C., 21st Mar. 1966.

Capt. J. S. GUGGA (MS-7581), A.M.C., 20th June 1966.

Capt. G. SINGH. (MS-7644), A.M.C., 24th July 1966.

Capt. H. L. SAHU, (MS-7938), A.M.C., 13th May 1968.

Capt. D. D. TRIPATHI, (MS-8052), A.M.C., 27th Jan. 1969.

No. 2738, dated 28th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

*Permanent Commission**Maj. to be Lt. Col.*

H. C. Berdia (MR-827) (4369), A.M.C., 1st May 1970.

K. L. Sobti, (MR-951), A.M.C., 12th July 1970.

Lt. to be Capt.

P. S. R. AIYER, (MR-2440), A.M.C., 4th Dec. 1968 with seniority from 3rd May 1966.

A. K. CHAUDHRI, (MR-2520), A.M.C., 7th May 1969 with seniority from 13th July 1966.

G. N. KATTI, (MR-2533), A.M.C., 7th May 1969 with seniority from 18th Jan. 1967.

T. N. Govindarajan, (NTR-16258), A.M.C., (Non-Tech.), 13th May 1970.

M. B. DATT, (NTR-16267), A.M.C., (Non-Tech.), 13th May 1970.

2/Lt. to be Lt.

T. N. GOVINDARAJAN, (NTR-16258) A.M.C., (Non-Tech.), 5th May 1970 with seniority from 13th May 1965.

M. CHANDER, (NTR-16262), A.M.C., (Non-Tech.), 5th May 1970 with seniority from 15th Mar. 1966.

O. P. WADHWA, (NTR-16263), A.M.C., (Non-Tech.), 5th May 1970 with seniority from 3rd May 1967.

A. VIJAYAN, (NTR-16264), A.M.C., (Non-Tech.), 5th May 1970 with seniority from 20th June 1968.

M. S. RANA, (NTR-16265), A.M.C., (Non-Tech.), 5th May 1970 with seniority from 20th June 1968.

G. SAMSON, (NTR-16266), A.M.C., (Non-Tech.), 5th May 1970 with seniority from 20th June 1968.

*Emergency Commission**Capt. to be Quasi-Subs. Major*

P. Narain, (M-30568) A.M.C., 14th Aug. 1970.

Lt. to be Capt.

A. CHATURVEDI, (M-30856), A.M.C., 7th Jan. 1966.

(M. of D. Notn. No. 1753, dated 8th June 1967 published in the G. of I. dated 24th June 1967 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

D. S. MISHRA, (M-30881), A.M.C., 19th Feb. 1966.

(M. of D. Notn. No. 2912, dated 7th Oct. 1967 published in the G. of I. dated 28th Oct. 1967 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

H. SUTRADHAR, (M-30873), A.M.C., 2nd Mar. 1966.

(M. of D. Notn. No. 3071, dated 28th Oct. 1967, published in the G. of I. dated 11th Nov. 1967 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

R. P. SINGH, (M-30858), A.M.C., 14th Mar. 1966.

(M. of D. Notn. No. 1811, dated 19th June 1967 published in the G. of I. dated 1st July 1967 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

T. B. RAMAKRISHNAN, (M-30872), A.M.C., 2nd Apr. 1966.

(M. of D. Notn. No. 1812, dated 12th June 1967 published in the G. of I. dated 1st July 1967 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

A. K. CHAUDHRI (M-30764), A.M.C., 13th July 1966

(M. of D. Notns. No. 1812, dated 12th June 1967 and No. 3141 dated 3rd Nov. 1967, published in the G. of I. dated 1st July 1967 and dated 18th Nov. 1967 respectively, in so far as they relate to the above named officer are hereby cancelled).

I. MUND, (M-30979) A.M.C., 22nd Sep. 1966.

(M. of D. Notn. No. 2170, dated 29th July 1967 published in the Gazette dated 12th Aug. 1967 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

P. D. BASKARA RAJA, (M-30902) (10054), A.M.C., 6th Oct. 1966.

(M. of D. Notn. No. 1812, dated 12th June 1967 published in the G. of I. dated 1st July 1967 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

A. B. RAYUDU (M-30982), A.M.C., 22nd Feb. 1967.

(M. of D. Notn. No. 1812, dated 12th June 1967 published in the G. of I. dated 1st July 1967 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

*Short Service Commission**Capt. to be Quasi Subs. Maj.*

B. M. AGRAVAT (MS-6781) A.M.C., 23rd Dec. 1969.

Lt. to be Capt. (on probn.)

G. N. KATTI, (MS-7548), A.M.C., 18th Jan. 1967.

(M. of D. Notn. No. 2912, dated 7th Oct. 1967 published on 28th Oct. 1967 in respect of this officer is hereby cancelled).

R. S. CHAUDHRI, Under Secy.

No. 2739, dated 28th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

*Infantry**Brigade of The Guards**To be Sub.*

Nb. Sub. Siri Ram (JC-19981), 3rd Sep. 1969.

Nb. Sub. Krishna Bahadur Rai (JC-30932). 12th Nov. 1969.

Nb. Sub. Rajbux Singh (JC-31104), 11th May 1970.

*Army Educational Corps**To be Sub.*

Nb. Sub. Balbir Singh (JC-19433), 1st July 1970.

Nb. Sub. Devi Singh (JC-19435), 7th July 1970.

Nb. Sub. Kanwar Singh (JC-19436). 10th July 1970.

Nb. Sub. Pargat Singh (JC-19438). 20th July 1970.

Nb. Sub. Iekhray Singh Bisht (JC-19439), 24th July 1970.

P. K. KUMARAN, Under Secy.

No. 2740, dated 30th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Army Ordnance Corps

To be Sub. Maj. Clk. Store (Cont.)

- Sub. Sudhir Chandra Banerjee (48916-JC), 1st July 1970.
- Sub. V Gurudasan (48926-JC), 7th July 1970.
- Sub. Sher Singh (48967-JC), 10th July 1970.
- Sub. A. Thyagarajan (48365-JC), 22nd July 1970.

To be Sub. Maj. SK Tech.

- Sub. SK Tech. (GS&C) Sewa Singh (38152-JC), 27th June 1970.
- Sub. SK Tech. (GS&C) Karam Singh (38574-JC), 1st July 1970.
- Sub. SK Tech. (MT) Lalit Mohon Paul (38197-JC), 1st July 1970.
- Sub. SK Tech. (Wep) M. Thiruvenkatachari (40055-JC), 11th July 1970.

To be Sub. Clk. GD

- Nb. Sub. Dilip Singhji (JC-25374), 7th July 1970.
- Nb. Sub. Sharm Singh (JC-25376), 7th July 1970.
- Nb. Sub. Daya Shankar Avasthy (JC-25377), 19th July 1970.
- Nb. Sub. Bawa Dass (JC-25382), 21st July 1970.
- Nb. Sub. Bhagwan Singh (JC-31548), 29th July 1970.

To be Sub. Clk. Store (Cont.)

- Nb. Sub. Megh Raj (JC-22820), 30th June 1970.
- Nb. Sub. Amiya Bhusan Chakrabarty (JC-22754), 9th July 1970.
- Nb. Sub. Ramani Kanta Nag (JC-22755), 11th July 1970.
- Nb. Sub. Govind Ganesh Kulkarni (JC-22756), 12th July 1970.
- Nb. Sub. Sukumar Sen (JC-17963), 13th July 1970.
- Nb. Sub. D. Venkatesh Setty (JC-22762), 14th July 1970.
- Nb. Sub. Ranjit Singh (JC-22759), 16th July 1970.
- Nb. Sub. A. Surya Rao (JC-22760), 16th July 1970.

To be Sub. SK Tech.

- Nb. Sub. SK Tech. (Amn.) Krishna Mangarulkar (JC-18094), 1st July 1970.
- Nb. Sub. SK Tech. (GS&C) G. Janardhanan Pillay (JC-18210), 1st July 1970.
- Nb. Sub. SK Tech. (MT) Gurbachan Singh (JC-18095), 1st July 1970.
- Nb. Sub. SK Tech. (MT) Balbir Singh (JC-18096), 8th July 1970.
- Nb. Sub. SK Tech. (GS&C) NC Sarker (JC-19196), 10th July 1970.
- Nb. Sub. SK Tech. (Amn) Ram Naresh Tewari (JC-18100), 17th July 1970.
- Nb. Sub. SK Tech. (MT) Ardhendu Bhattacharjee (JC-18101), 19th July 1970.
- Nb. Sub. SK Tech. (Wep) Anand Paikash (JC-19259), 20th July 1970.
- Nb. Sub. SK Tech. (MT) Gurbachan Singh (JC-19204), 22nd July 1970.
- Nb. Sub. SK Tech. (MT) Suresh Chandra Debnath (JC-19205), 23rd July 1970.
- Nb. Sub. SK Tech. (GS&C) Attar Singh (JC-19203), 24th July 1970.

To be Subedar

- Nb. Sub. SH Tech. Rameshwar Prasad Mahto (JC-37053), 1st July 1970.

Nb. Sub. SH Tech. Shaul (JC-36490), 15th July 1970.

Nb. Sub. SH GD Din Dayal (JC-36562), 16th July 1970.

Nb. Sub. SH Tech. Sunder Singh (JC-36491), 27th July 1970.

Corps of Electrical and Mechanical Engineers

To be Subdr Asst. Art. & Artz. (Eligible Categories)

Naib Sub. NA Desh Pandey (JC-14770), Naib Sub. Janak Singh (JC-16217), Naib Sub. Prem Singh (JC-16243), Naib Sub. Paritani Singh (JC-16261), Naib Sub. Pyara Singh (JC-17754), Naib Sub. Charan Singh (JC-19394), Naib Sub. PT Velayudha MENON (JC-18669), Naib Sub. Jagdish Ram (JC-19589), Naib Sub. Sagli Ram (JC-19060) and Naib Sub. KM Thiruvikraman NAIR, (JC-23251) 1st Aug 1970.

T. JACOB, Under Secy.

No. 2741, dated 26th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

Army Service Corps

(Mechanical Transport)

To be Sub.

- Nb. Sub. Bhoop Singh (JC-43363), 7th July 1970.
- Nb. Sub. Jaganathan (JC-43364), 7th July 1970.
- Nb. Sub. Harbhajan Singh (JC-43366), 15th July 1970.
- Nb. Sub. Sadh Ram (JC-43367), 15th July 1970.
- Nb. Sub. Moyis (JC-43368), 26th July 1970.
- Nb. Sub. Palliri Velayudhan Nair (JC-43369), 30th July 1970.

Supply

To be Subs. (Clerk GD)

- Nb. Sub. Chander Bhan (JC-25055), 2nd Oct. 1969.
- Nb. Sub. Parshotam Lal Datta (JC-41044), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Arjan Dev Middha (JC-42775), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Ram Bahadur Sharma (JC-42776), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Sher Singh Katoch (JC-42777), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Jiwan Ram (JC-42778), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Amir Chand (JC-42779), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Sohan Lall (JC-42780), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Dharam Pal (JC-42781), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Maracheril Varkey Mathai (JC-42782), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Govindaraja Balasubramaniam (JC-43095), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Thaker Dass (JC-43096), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Anant Ram (JC-43097), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Chanderhas (JC-43098), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Raja Singh (JC-43099), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Kalipada Sidhanta (JC-43100), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Sardha Ram (JC-43101), 25th Apr. 1970.
- Nb. Sub. Rajnarain Pandey (JC-43102), 29th Apr. 1970.

Remount and Veterinary Corps

To be Ris. Maj. (BO)

- Ris. (BO) Ram Iakhan Singh (RV-7058), 7th Dec. 1968.
- Ris. (BO) Ishwar Singh (RV-7061) 25th Nov. 1969.

To be Ris. (Clk)

- Nb. Ris. Clk. Satpal Singh (RV-7097), 18th June 1969.

V. S. RAGHAVAN, Under Secy.

No. 2742, dated 28th Sept. 1970.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Emergency Commission in the Army Medical Corps w.e.f. 7th May 1969 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps w.e.f. the same date under A.I. 191/62 as modified by Min. of Def. letter No. 17100/DGAFMS/DG-1(X)/6910/IV/D(Med.), dated 31st Dec. 1965.

REGULAR ARMY
Permanent Commission
To be Lt.

Anil Kumar CHAUDHRI, M.B., B.S., (M-30764 now MR-2520), A.M.C., with seniority for pay and promotion from 28th Oct. 1965.

No. 2743, dated 25th Sept. 1970.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his S.S.C. in the Army Medical Corps w.e.f. 4th Dec. 1968 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps w.e.f. the same date under A.I. 191/62 as modified by Min. of Def. letter No. 17100/DGAFMS/DG-1(X)/6910/IV/D(Med.), dated 31st Dec. 1965 and No. 17100/DGAFMS/DG-1(X)/2000/D(Med.), dated 18th Apr. 1970.

REGULAR ARMY
Permanent Commission
To be Lt.

Parameswar Sunder Rajan AIYER, M.B., B.S., (MS-7549 now MR-2440), A.M.C., with seniority for pay and promotion from 21st Mar. 1966.

No. 2744, dated 28th Sept. 1970.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish SSC on in the Army Medical Corps w.e.f. 7th May 1969 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps w.e.f. the same date under A.I. 191/62, as modified by Min. of Def. letter No. 17100/DGAFMS/DG-1(X)/6910/IV/D(Med.), dated 31st Dec. 1965.

REGULAR ARMY
Permanent Commission
To be Lt.

Gururaj Nerayanacharya KATTI, M.B., B.S., (MS-7548 now MR-2533), A.M.C., with seniority for pay and promotion from 21st Mar. 1966.

No. 2745, dated 28th Sept. 1970.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his S.S.C. in the Army Medical Corps (Non-Tech.), w.e.f. 12th May 1970 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps (Non-Tech.), w.e.f. the same date under A.I. 231/62 :—

REGULAR ARMY
Permanent Commission
To be Lt.

Mast Bahadur DATT, (NTS-17108 now NTR-16267), A.M.C., (Non-Tech.) with seniority for promotion from 13th May 1963 and for pay from 13th May 1961.

No. 2746, dated 28th Sept. 1970.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to relinquish their S.S.C. in the Army Medical Corps (Non-Tech.), w.e.f. 5th May 1970 and to grant them Permanent Commission in the Army Medical Corps (Non-Tech.), w.e.f. the same date under A.I. 231/62 :—

REGULAR ARMY
Permanent Commission
To be 2/Lt.

Tirumani Natesa GOVINDARAJAN, (NTS-17120 now NTR-16258), A.M.C., (Non-Tech.), with seniority for pay and promotion from 13th May 1963.

Mahesh CHANDER, (NTS-17207 now NTR-16262), A.M.C., (Non-Tech.), with seniority for pay and promotion from 15th Mar. 1964.

Om Prakash WADHWA, (NTS-17240 now NTR-16263), A.M.C., (Non-Tech.), with seniority for pay and promotion from 3rd May 1965.

Aliyath VIJAYAN, (NTS-17246 now NTR-16264), A.M.C., (Non-Tech.), with seniority for pay and promotion from 20th June 1966.

Meharwan Singh RANA, (NTS-17248 now NTR-16265), A.M.C., (Non-Tech.), with seniority for pay and promotion from 20th June 1966.

Gnanamanickam SAMSON, (NTS-17249 now NTR-16266), A.M.C., (Non-Tech.), with seniority for pay and promotion from 20th June 1966.

No. 2747, dated 25th Sept. 1970.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish her Commission on reversion to Civil employment :—

REGULAR ARMY
Emergency Commission

Capt. (Mrs.) P. A. Aissa Beevi, (M-30665), A.M.C., 3rd Apr. 1969.

No. 2748, dated 25th Sept. 1970.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish SSC on probn. in the rank of 2/Lt. in the A.M.C., consequent on his simultaneous appointment to SSC in the A.M.C., under A.I. 208/59, as modified by Min. of Def. letter No. 17100/DGAFMS/DG-1(X)/6910/V/D(Med.), dated 31st Dec. 1965 for a period of 5 years w.e.f. 10th Apr. 1970 as follows :—

REGULAR ARMY
Short Service Commission
To be Lt. (on probn.)

Natarajan KALYANASUNDRAM, M.B., B.S., (MS-8355), A.M.C.

R. S. CHAUDHRI, Under Secy.

No. 2749, dated 21st Aug. 1970.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to resign from Army service at his own request :—

Territorial Army
(Territorial Commission)

Lt. S. GANESAN, (TA-41000), Engineers, 9th Jun. 1970.
GANESH SWARUP, Under Secy.

No. 2750, dated 28th Sept. 1970.—The undermentioned officer retired from service w.e.f. the date indicated against his name :—

REGULAR ARMY
(AOC)

Shri SUNDER PARKASH Pmt. OO. Civ. (Admin.)—3rd Aug. 1970 (FN).

S. K. KAK, Under Secy.

No. 2751, dated 29th Sept. 1970.—The undermentioned officer is dismissed from the Service with effect from the date shown against his name by sentence of a General Court Martial :—

REGULAR ARMY
Permanent Commission

Mai. K. P. G. NAIR, (IC-7972), 10 JAK RIF., 18th Sep. 1968 (FN).

C. V. NARAYANAN, Under Secy.

No. 2752, dated 25th Sept. 1970.—The President is pleased to release the undermentioned officers from Army service :—

REGULAR ARMY

Short Service Commission

Capt. R. GOPALAKRISHNAN, (MS-7375), A.M.C., 27th June 1970.

Capt. B. SINGH, (MS-7361), A.M.C., 1st July 1970.

No. 2753, dated 25th Sept. 1970.—The President is pleased to revert the under-mentioned Nursing Officer to the State Medical Services :—

REGULAR ARMY

Military Nursing Service (Tempy.)

Lt. (Miss) VJ ANNA, (NS-14367), 28th Aug. 1970.

CORRIGENDUM

No. 2754, dated 25th Sept. 1970.—In M. of D. Notn. No. 2633, dated 22nd Sep. 1968 published in the G. of I. dated 19th Oct. 1968 under the heading 'REGULAR ARMY' sub-heading 'SHORT SERVICE COMMISSION' and 'Lt. to be Capt. (on probn.)', against the name of S. R. GHOSH, (MS-7594), A.M.C., for '21st Dec. 1966' read '25th June 1966'.

R. S. CHAUDHRI, Under Secy.

CORRIGENDA

No. 2755, dated 28th Sept. 1970.—(i) Min. of Def. Extraordinary Notn. No. 10-E dated 15th Aug. 1969 regarding grant of honv. ranks to NCOs is amended as under :—

Under Heading "To be Honv. Naib Ris./Subedars."

Under Group "The Rajput Regiment".

For "2915359 Hav. MOOL SINGH—14th Mar. 1969".

Read "2915359 Hav. MOOL SINGH—6th Mar. 1969".

For "2916594 Hav. PABUDAN SINGH—10th May 1969".

Read "2916594 Hav. PABUDAN SINGH—10th Mar. 1969".

Veerappa RAMANATHAN, Krishna Kumar MEHROTRA,

(ii) Min. of Def. Extraordinary Notn. Nos. 8-E, 9-E and 10-E dated 12th Aug. 1970, published on 15th Aug. 1970, regarding grant of honv. commissions/ranks to JCOs/NCOs are amended as under :—

(a) In Notn. No. 8-E

Under Heading "To be Honorary Lieutenants".

Under Group "ARMY ORDNANCE CORPS".

Delete "JC 19215 Sub. LACHMAN SINGH".

(b) In Notn. No. 9-E

(i) Under Heading "To be Honorary Captains".

Under Group "3 CAVALRY".

For "JC 4711 Ris. & Honv. Lt. JAGAT SINGH—16th May 1970".

Read "JC 4711 Ris. Maj. & Honv. Lt. JAGAT SINGH—16th May 1970".

Under Group "KUMAON REGIMENT".

For "JC 2433 Sub. Maj. & Honv. Lt. HARI SINGH—12th Jun. 1970".

Read "JC 2423 Sub. Maj. & Honv. Lt. HARI SINGH—12th June 1970".

(ii) Under Heading "To be Honv. Ris./Sub. Majors".

Under Group "14 HORSE".

For "JC 7902 Ris. KAMAL SINGH—13th May 1970".

Read "JC 7962 Ris. KAMAL SINGH—13th May 1970".

Under Group "THE SIKH LIGHT INFANTRY".

For "JC 29100 Sub. JAGIR SINGH—25th Mar. 1970".

Read "JC 29100 Sub. JAGIR SINGH—25th May 1970".

(c) In Notn. No. 10-E

Under Heading "To be Honv. Naib Risaldars/Subedars".

Under Group "Rajputana Rifles".

For "2834587 Hav. BHAG SINGH—6th Sep. 1969".

Read "2834587 Hav. BAGH SINGH—6th Sep. 1969".

Under Group "SIKH REGIMENT".

For "3337504 Hav. TEJ BALI SHARMA—23rd Nov. 1969".

Read "3337504 Hav. Cook TEJ BALI SHARMA—23rd Nov. 1969".

Delete "4433115 Hav. AMAR SINGH—28th Feb. 1970".

Under Group "The Sikh Light Infantry".

Delete "4433281 Hav. SADHU SINGH—7th Jul. 1970".

In the end add "4433115 Hav. AMAR SINGH—28th Feb. 1970".

Under Group "11 GORKHA RIFLES".

For "5026134 Hav. SURJA MAN RAI—10th Feb. 1970".

Read "5028134 Hav. SURJAMAN RAI—10th Feb. 1970".

(iii) Min. of Def. Extraordinary Notn. No. 12-E dated 12th Aug. 1968 regarding grant of honv. ranks to NCOs is amended as under :—

Under Heading "To be Honv. Naib Ris./Sub".

Under Group "CORPS OF SIGNALS".

For "6250227 Hav. DHANI RAM—3rd Mar. 1968".

Read "6250227 Hav. DHANI RAM—8th Mar. 1968".

P. K. KUMARAN, Under Secy.

No. 2756, dated 28th Sept. 1970.—The Gazette of India No. 34, dated 22nd Aug. 1970 is amended as under :—

Military Engineer Services

Page 1035, Part I Section 4 (English version).

DELETE "Tempy. Asstt. Architects to be quasi pmt. Architects".

and

SUBSTITUTE "Tempy. Asstt. Architects to be quasi permanent Asstt. Architects".

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

(NAVY BRANCH)

No. 2757, dated 29th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following appointments in the Engineering Branch of the Indian Navy under the Min. of Def. letter No. OF/3478/66/NHQ/1891/S/D(N-II), dated 4th Aug. 1967 and No. OF/3492/68/NHQ/12376/D(N-II), dated 24th Dec. 1969, from the dates shown against their names, Their reckon-

able service for promotion will count from the dates shown against each :—

Navy Branch
(Permt. Cadre)
Engineering Branch
To be Acting Sub. Lt. (on prob.)

	Date of appointment	Reckonable service promotion to count from
Verrappa RAMANATHAN,	1-7-1967	5-1-1969.
Krishna Kumar MEHROTRA,	1-7-1967	23-12-1968.
Surendra Kumar KULSHRESTHA,	1-7-1967	15-7-1968.
Pravin Chand SRIMAL,	1-7-1967	15-7-1968.
Vijay Kumar BHATIA,	1-7-1967	15-7-1968.
Mukundan RADHAKRISHNAN,	1-7-1967	15-7-1968.
Kudige Sudhama SHENOY,	1-7-1967	5-8-1968.
Jai Pal Singh BUNDELA,	3-7-1967	15-7-1968.
Raghavan Pillai Krishna PILLAI,	8-7-1967	5-8-1968.
Kizhakke Variath KUNHIKRISHNAN,	10-7-1967	3-8-1968.
BALWINDER SINGH,	17-7-1967	21-7-1968.
Balwant Singh THAKRAL,	17-7-1967	18-7-1968.
Gulshan Kumar MALHOTRA,	17-7-1967	15-7-1968.
Gulshan Rai SARNA,	17-7-1967	15-7-1968.
Virendra Nath GULATI,	17-7-1967	15-7-1968.
ARVIND LOCHAN,	17-7-1967	15-7-1968.
HUSEN MOHAMMED,	17-7-1967	28-7-1968.
Suraj Bhan KALONIA,	30-9-1967	15-7-1968.
Arun Bhimarao PATIL,	24-12-1967	21-7-1968.
YOGENDRA PAL,	24-12-1967	2-8-1968.
Avinash Manjanath TELANG,	24-12-1967	15-7-1968.
Pravash Chandra MISHRA,	24-12-1967	28-7-1968.
Ved Prakash VERMA,	24-12-1967	20-7-1968.
Devaguptapu Seshagiri RAO,	24-12-1967	15-7-1968.
Terrattanath Ittoop PUNNEN,	24-12-1967	5-8-1968.
Kurisinkal Thomas Austin CLEMENT	24-12-1967	5-8-1968.
Kolar Hari KUMAR,	22-3-1968	4-1-1969.

JAWAHIR SINGH, Under Secy.

No. 2758, dated 28th Sept. 1970.—The President is pleased to make the following appointments :—

Shri C. J. D'SOUZA, Pmt. UDC., Offg. AASO, appointed to carry out the full duties of Dy. Armament Supply Officer Grade I, in addition to his own vice Shri N. A. MALWADE, Dy. Armament Supply Officer Gde. I, granted leave from 22nd Jul. 1968 to 31st Oct. 1968.

Shri W. RODRIGUES, Pmt. Foreman to be Offg. Civilian Technical Assistant (Construction), 1st Aug. 1970.

He will be on probn. for two years.

Shri S. C. ADHIKARI, Pmt. Civilian Storekeeper Grade I, to be Offg. CGO(Eqpt), w.e.f. 16th Jul. 1970, until further orders.

The officer will be on probn. for a period of two years.

V. A. VALIAPARAMPIL, Under Secy.

(AIR BRANCH)

No. 2759, dated 28th Sept. 1970.—The President is pleased to promote the undermentioned officers to the subs. rank of Wg. Cdr. :—

Indian Air Force Equipment Branch

Sqn. Ldrs. (Actg. Wg. Cdrs.) M. K. Shirpurkar (3764), V. S. Lakhanpal (3706) and H. R. Vasdev (3758), 1st Apr. 1970.

No. 2760, dated 17th Sept. 1970.—The President is pleased to transfer the undermentioned officer to the Regular Air Force Reserve on his voluntary retirement from the Regular Air Force :—

Indian Air Force Tech./Eng. Branch

Sqn. Ldr. G. Periyalwar (5362), from 29th June, 1970 to 28th June, 1975.

S. P. RAI, Under Secy.

